

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 42]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 2 फरवरी 2023 — माघ 13, शक 1944

वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 27 जनवरी 2023

अधिसूचना

क्रमांक एफ 06-121/2002/वाक(पं.)/पांच (92).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ पंजीयन तथा मुद्रांक सेवा (विज्ञप्त) भर्ती नियम, 1984 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं अर्थात :-

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,—

अनुसूची-एक, दो, तीन एवं चार के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात :-

“अनुसूची-एक
(नियम 5 देखिये)

| स. क्र. | सेवा में सम्मिलित पदों के नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतन मैट्रिक्स लेवल |
|---------|--|----------------|----------------|---------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं उप अधीक्षक मुद्रांक | 01 | प्रथम श्रेणी | लेवल-14 |
| 2. | वरिष्ठ जिला पंजीयक | 02 | प्रथम श्रेणी | लेवल-14 |
| 3. | जिला पंजीयक (क) मुख्यालय स्तर-01 (ख) क्षेत्रीय (फील्ड) स्तर-21 | 22 | द्वितीय श्रेणी | लेवल-12 |
| 4. | वरिष्ठ उप पंजीयक | 32 | द्वितीय श्रेणी | लेवल-10 |

अनुसूची-दो
(नियम 6 देखिये)

| विभाग का नाम | सेवा या पद का नाम | पदों की कुल संख्या | भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत | |
|-----------------------------|---|--------------------|---|---|
| | | | सीधी भरती द्वारा [नियम.6(1)(क) देखिये] | सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा [नियम 6(1)(ख) देखिए] |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग | छत्तीसगढ़ पंजीयन एवं मुद्रांक (विज्ञप्त) सेवा | | | |
| | 1. उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं उप अधीक्षक मुद्रांक | 01 | - | 100% |
| | 2. वरिष्ठ जिला पंजीयक – (क) क्षेत्रीय (फील्ड) स्तर पर | 02 | - | 100% |
| | 3. जिला पंजीयक (क) मुख्यालय स्तर-01 (ख) क्षेत्रीय (फील्ड) स्तर-21 | 22 | 50% | 50% |
| | 4. वरिष्ठ उप पंजीयक – (क) क्षेत्रीय (फील्ड) स्तर पर | 32 | - | 100% |

टीप:- पंजीयन कार्यालय, जिनमें वरिष्ठ उप पंजीयक का पद स्वीकृत है, वरिष्ठ श्रेणी उप पंजीयक के पद की पूर्ति के लिए अर्ह अधिकारी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में, उक्त पद पर कुछ समय के लिए किसी उप पंजीयक को चालू प्रभार दिया जा सकेगा।

अनुसूची-तीन
(नियम 8 देखिये)

| विभाग का नाम | सेवा या पद का नाम | न्यूनतम आयु सीमा | उच्चतर आयु सीमा | विहित शैक्षणिक अर्हता |
|-----------------------------|---|------------------|-----------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग | छत्तीसगढ़ पंजीयन एवं मुद्रांक (विज्ञप्त) सेवा | | | |
| | 1. जिला पंजीयक | 21 वर्ष | 30 वर्ष | किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला या विज्ञान (जिसमें तकनीकी या अभियांत्रिकी उपाधि भी सम्मिलित है) अथवा वाणिज्य या कृषि में स्नातक उपाधि |

टीप :- ऐसे अभ्यर्थी, जो छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी हैं, के लिए उच्चतर आयु सीमा, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार शिथिलनीय होगी।

अनुसूची-चार
(नियम 13 देखिये)

| विभाग का नाम | पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है | पदोन्नति के लिए पात्रता हेतु कालम (2) में अंकित पद पर न्यूनतम सेवा अनुभव | उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जावेगी | विभागीय पदोन्नति समिति का गठन |
|-----------------------------|-------------------------------------|--|--|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग | 1. जिला पंजीयक | 10 वर्ष | वरिष्ठ जिला पंजीयक/उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं उप अधीक्षक मुद्रांक | (1) अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग या उनके द्वारा नाम निर्देशित सदस्य —अध्यक्ष (2) सचिव, वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग —सदस्य (3) महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक —सदस्य |
| | 2. वरिष्ठ उप पंजीयक | 5 वर्ष | जिला पंजीयक | (4) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति वर्ग से एक प्रथम श्रेणी अधिकारी —सदस्य |
| | 3. उप पंजीयक | 5 वर्ष | वरिष्ठ उप पंजीयक | टीप:- पदोन्नति समिति में महिलाओं के प्रतिनिधित्व किये जाने हेतु एक महिला सदस्य को रखा जाना आवश्यक होगा। |

टीप:- यदि वरिष्ठ जिला पंजीयक अधिकारी, क्षेत्र (फील्ड) में कार्यरत है, तो वरिष्ठ जिला पंजीयक कहलायेगा तथा महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक कार्यालय में पदस्थ है, तो उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं उप अधीक्षक मुद्रांक कहलायेगा।”

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निरंजन दास, सचिव.